



ब्रैम्पटन सिटी हॉल में 20 और 21 अक्टूबर तथा 17 और 18 नवंबर को सिर्फ तय मुलाकात के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान करने का समय बढ़ा दिया गया है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (15 अक्टूबर, 2020) – सिटी ने निवासियों और कारोबारियों के लिए, उनके प्रॉपर्टी टैक्सों का भुगतान करने के लिए, सिटी हॉल (City Hall) में निम्नलिखित तारीखों को इसका समय बढ़ा दिया है:

- मंगलवार, 20 अक्टूबर
- बुधवार, 21 अक्टूबर
- मंगलवार, 17 नवंबर
- बुधवार, 18 नवंबर

संचालन का बढ़ा हुआ समय सुबह 8:30 बजे से रात 8 बजे तक होगा। सिटी हॉल में प्रॉपर्टी टैक्सों का भुगतान करने के लिए, निवासियों के लिए पहले से ही [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की वेबसाइट \(City of Brampton website\)](#) पर मुलाकात बुक करना आवश्यक है।

प्रॉपर्टी टैक्स की नियत तारीखें [यहां \(here\)](#) देखी जा सकती हैं।

निवासियों को याद दिलाया जाता है कि सिटी की व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, सिटी की फ़ैसिलिटीज में जाने से पहले मुलाकात बुक करना जरूरी है। बिना मुलाकात बुक किए आने की अनुमति नहीं है। मुलाकातें [सिटी की वेबसाइट \(City's website\)](#) पर बुक, रीशेड्यूल और रद्द की जा सकती हैं।

[प्रॉपर्टी टैक्सों \(property taxes\)](#) का भुगतान करने के कई वैकल्पिक सुरक्षित व सुविधाजनक तरीके हैं:

- बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान में
- वित्तीय संस्थानों द्वारा इंटरनेट/टेलिफोन बैंकिंग
- चेक
- प्री-अथॉराइज़्ड टैक्स भुगतान प्लान

अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca पर जाएं।

इस माह के शुरू में, सिटी काउंसिल (City Council) ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भुगतानों के लिए, सारे ब्याज और जुर्मानों को 31 दिसम्बर तक स्थगित करने की [मंजूरी \(approved\)](#) दी थी, ताकि इस मुश्किल समय में निवासियों और कारोबारियों को अतिरिक्त आर्थिक राहत प्रदान की जा सके। उस समय किसी भी बकाया राशि पर लगने वाले और जुर्माने तथा ब्याज से बचने के लिए, 31 दिसम्बर से पहले, सिटी को आवश्यक तौर पर पूरी राशि का भुगतान मिल जाना चाहिए।



BRAMPTON

Service and Information Update

मुलाकातों की बुकिंग या प्रॉपर्टी टैक्स भुगतानों संबंधी सवालों के लिए, कृपया 24/7 मदद तक पहुंच के लिए 311 पर फोन करें और 311@brampton.ca पर ईमेल करें।

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca